



# Aro granite industries Ltd.

Regd. Office : 1001, 10th Floor, DLF Tower A, Jasola, New Delhi - 110 025  
Phone : 91-11-41686169, Fax : 91-1126941984, E-mail : arodelhi@arotile.com

Date: 02.08.2025

Bombay Stock Exchange Limited  
Department of Corporate Services  
Floor 25, P.J. Towers  
Dalal Street  
Mumbai 400001  
(SCRIP CODE: 513729)

National Stock Exchange of India Limited  
Listing Department  
5<sup>th</sup> Floor, Exchange Plaza  
Bandra (E)  
Mumbai 400051  
(SYMBOL: AROGRANITE/EQ)

**Sub: Newspaper advertisement in respect of Published Financial Results for the Quarter ended June 30, 2025.**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, please find enclosed herewith the copy of Audited financial results for the quarter ended on June 30, 2025 as published by the Company in Newspapers viz. Financial Express (In all editions English), and Jansatta (Hindi) on August 2, 2025.

You are requested to take the same on your record.

Thanking You

Yours Faithfully  
For **Aro Granite Industries Limited**

**Ayush Goel**  
**Company Secretary and Compliance Officer**

**Encl.:** As stated above



Aro granite industries Ltd.					
(100% Export Oriented Unit) CIN: L24980KL1988PLC031510 Regd. Office: 1001, 10th Floor, DLF Tower A, Jasola, New Delhi - 110025 Ph: 011-41686169, Fax: 011-26941984, Email: investor@arogranite.com, Website: www.arogranite.com					
EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2025					
Sl. No.	Particulars	Quarter ended			Rs. in Lakhs
		30.06.2025	31.03.2025	30.06.2024	
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	
1.	Total Income from operations	2,747.35	13,274.87	3,873.67	
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax Exceptional and/or Extraordinary Items)	9.92	(685.17)	14.95	
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	9.92	(685.17)	14.95	
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	5.58	(642.28)	75.43	
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	0.00	(632.96)	83.58	
6.	Paid up Equity Share Capital	1,530.00	1,530.00	1,530.00	
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations):				
a.	Basic:	(0.00)	(4.07)	0.54	
b.	Diluted:	(0.00)	(4.07)	0.54	

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results is available on the websites of the Stock Exchange(s), www.bseindia.com, www.nseindia.com and the Company's website www.arogranite.com.

For & on behalf of the Board  
Sd/-  
Sunil Kumar Arora  
Managing Director  
DIN 00150668

Place : HOSUR  
Date : 01.08.2025



KAYCEE INDUSTRIES LIMITED									
CIN NO. - L70102MH1942PLC00482 Regd. Off: Old karmajambha, SE-Rampolha karmajambha, Bafdar Estate, Mumbai-400001 Website: www.kayceesindustries.com Email id: info@kayceesindustries.com Tel No: 022 22613521 Fax No: 22613521									
EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025									
Sl. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter ended		Year ended		Quarter ended		Year ended	
		30.06.2025	31.03.2025	30.06.2024	31.03.2025	30.06.2025	31.03.2025	30.06.2024	31.03.2025
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1.	Total Income from Operations	1,389.60	1,538.12	1,261.05	5,320.41	1,389.60	1,538.12	1,261.05	5,320.41
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	189.95	250.65	202.07	787.59	189.95	250.65	202.07	787.59
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	189.95	250.65	202.07	787.59	189.95	250.65	202.07	787.59
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	139.79	187.13	150.42	587.69	126.00	179.94	150.42	577.87
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-	-4.32	-	-4.04	-	-4.32	-	-4.04
6.	Equity Share Capital	317.35	317.35	317.35	317.35	317.35	317.35	317.35	317.35
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance Sheet of the previous year	2,725.75	2,585.96	2,470.07	2,585.96	2,762.09	2,636.09	2,470.07	2,636.09
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10 / - each) (for continuing and discontinued operations) -								
a.	Basic:	4.40	5.90	4.74	18.32	3.97	5.67	4.74	18.18
b.	Diluted:	4.40	5.90	4.74	18.32	3.97	5.67	4.74	18.18

Notes:

- The Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) have been prepared in accordance with the recognition and measurement principle provided in Indian Accounting Standards (IndAS), the provisions of the Companies Act, 2013 (the Act), as applicable and guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI (LODR) Regulations, 2015) as amended.
- The above statement of financial results (Standalone and Consolidated) was reviewed and recommended by the Audit Committee of the Board on 1st August, 2025 and subsequently approved by the Board of Directors at their meeting held on 1st August 2025. The Statutory auditors have carried out a limited review of the results for the quarter ended June 30, 2025.
- In accordance with the Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the above unaudited financial results of the company are posted on the company's website www.kayceesindustries.com and on the website of BSE www.bseindia.com where the company's shares are listed.

By order of the Board of Directors  
For Kaycee Industries Limited  
Sd/-  
D. Rajesh Kumar  
Director DIN: 00003126

Place : Mumbai  
Date: 1st August 2025



BINNY MILLS LIMITED					
Regd. Office: NO.4, Karpagamambal Nagar, Mylapore, Chennai- 600004. CIN L17120TN2007PLC065807					
Statement of Unaudited (Standalone) Financial Results for the quarter ended 30th June 2025 under IND AS					
S. No	Particulars	Quarter ended			Rs. in Lakhs
		June 30, 2025 (Un audited)	March 31, 2025 (Audited)	June 30, 2024 (Un audited)	Year ended March 31, 2025 (Audited)
1.	Total Income from Operations	130.46	171.05	155.71	632.18
2.	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	(294.14)	(247.95)	(261.50)	(1,271.38)
3.	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(294.14)	(247.95)	(261.50)	(1,271.38)
4.	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(287.30)	(288.02)	(267.47)	(1,270.54)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(287.35)	(289.76)	(266.85)	(1,270.35)
6.	Paid up Equity Share Capital	258.33	258.33	318.85	258.33
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	NA	NA	NA	(23,117.12)
8.	Securities Premium Account	NA	NA	NA	-
9.	Net Worth	NA	NA	NA	(22,858.79)
10.	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	NA	NA	NA	-
11.	Outstanding Redeemable Preference Shares	NA	NA	NA	14,070.91
12.	Debt Equity Ratio	NA	NA	NA	(0.62)
13.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)				
a.	Basic	(11.55)	(11.22)	(8.39)	(49.18)
b.	Diluted	(11.55)	(11.22)	(8.39)	(49.18)
14.	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA	89.92
15.	Debenture Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA
16.	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	0.11
17.	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA	NA

Note:

- The above financial results for the quarter ended 30th June 2025 was recommended for approval by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 31st, July 2025.
- The above financial results have been prepared in compliance with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting policies and practices to the extent applicable.
- Figures of the previous period have been regrouped/rearranged wherever necessary to conform to current period's presentation

Place : Chennai  
Date : 31-07-2025

Sd/-  
V. R. Venkatachalam  
Director  
DIN 00037524

L.G. BALAKRISHNAN & BROS LIMITED									
Registered Office: 6/16/13 Krishnarayapuram Road, Ganapathy, Coimbatore-641 006 CIN NO. L29191TZ1956PLC000257 Tel: 0422-2532325 E-mail: info@lgb.co.in Website: www.lgb.co.in									
STATEMENT OF STANDALONE/CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30-06-2025									
Particulars	Quarter ended			Year ended			Quarter ended		
	30.06.2025	31.03.2025	30.06.2024	30.06.2025	31.03.2025	30.06.2024	30.06.2025	31.03.2025	30.06.2024
STANDALONE					CONSOLIDATED				
1.	Total Income from operations	59,246.04	60,579.35	53,798.89	239,074.42	65,704.51	66,917.36	57,129.15	257,828.74
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional Items)	8,025.40	8,872.27	8,205.64	36,750.76	8,282.08	8,946.81	8,000.41	36,836.46
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional Items)	8,863.46	10,130.23	8,930.23	39,053.42	9,120.14	10,204.77	8,725.00	39,139.12
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional Items)	6,679.88	7,257.31	6,726.72	29,066.21	6,696.83	8,402.69	6,521.49	30,209.07
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax)]	8,405.63	3,406.27	10,219.52	25,940.54	8,406.07	4,583.33	10,012.97	27,133.03
6.	Equity Share Capital	3,189.24	3,189.24	3,139.24	3,189.24	3,189.24	3,189.24	3,139.24	3,189.24
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the audited balance sheet of previous year)	-	-	-	158,666.24	-	-	-	160,978.84
8.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) ("not annualised")								
(a) Basic	20.95*	22.76*	21.43*	91.83	21.00*	26.35*	20.78*	95.44	
(b) Diluted	20.95*	22.76*	21.43*	91.83	21.00*	26.35*	20.78*	95.44	

Note:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges on which shares of the Company are listed, namely, www.bseindia.com, www.nseindia.com and available on the Company's website www.lgb.co.in
- Exceptional item represents Subsidiary received.

Coimbatore  
31.07.2025

By Order of the Board,  
For L.G. BALAKRISHNAN & BROS LIMITED  
B. VIJAYAKUMAR  
EXECUTIVE CHAIRMAN



HAP		HATSUN AGRO PRODUCT LIMITED	
Regd. office: No.41 (49), Janakiram Colony Main Road, Janakiram Colony, Arumbakkam, Chennai - 600 106. Tel / Fax: 044 - 4796 1124		CIN: L15499TN1986PLC012747	
Corp. office: No.14, TNHB, TN Housing Board "A" Road, Sholinganallur, Chennai - 600 119. Tel: +91 44 2450 1622 / Fax: +91 44-2450 1422		Email: secretariat@hap.in / Website: www.hap.in	

**NOTICE**

The Fortieth Annual General Meeting ("40<sup>th</sup> AGM") of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Thursday, 28<sup>th</sup> August, 2025 at 10.00 A.M IST, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and SEBI Circulars (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM.

Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of Quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Notice is also hereby given pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 that the business as set out in the Notice of Annual General Meeting may be transacted by electronic voting and that the Company is pleased to offer e-voting facility to the members to cast their votes electronically on all the resolutions set forth in the Notice of AGM. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) to provide the e-voting facility.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of AGM and financial statements for the financial year 2024-25, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, have been sent on 1<sup>st</sup> August, 2025 to the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.hap.in and on the websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on the website of NSDL (agency providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com.

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, the 27<sup>th</sup> August, 2025 to Thursday, the 28<sup>th</sup> August, 2025 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

**Instructions for remote e-voting and e-voting during AGM:**  
The Company is providing to its members, facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means ("e-voting"). Members may cast their votes remotely, using the members voting system of NSDL on the dates mentioned herein below ("remote e-voting").

Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and the Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM.

Information and instructions including details of user id and password relating to e-voting form part of the Notice of AGM which has been sent to the members through e-mail. The login credentials used for e-voting should be used for attending the AGM through VC / OAVM.

The manner of remote e-voting and voting at the AGM by the Members holding shares in a dematerialized mode, physical mode and members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM and is also available on the website of the Company: www.hap.in and on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on the website of NSDL (agency providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com

The remote e-voting facility will be available during the following voting period:  
**Commencement of remote e-voting:** 9:00 A.M. on Monday, 25<sup>th</sup> August, 2025  
**Conclusion of remote e-voting:** 5:00 P.M. on Wednesday, 27<sup>th</sup> August, 2025

The voting rights of the Members will be reckoned as of Thursday, the 21<sup>st</sup> August, 2025 which is the Cut-Off date.

In case, a person has become a member of the Company after dispatch of notice of Annual General Meeting but on or before the cut-off date for e-voting i.e., Thursday, the 21<sup>st</sup> August, 2025 he/she may write to NSDL on the email id evoting@nsdl.com requesting for the User id and Password. If the member is already registered with NSDL for e-voting, the member can use the existing User id and Password for casting his / her vote through remote e-voting.

In case, members have any queries regarding e-voting, they may refer to the frequently asked questions (FAQ) and e-voting user manual available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call at Help Desk No. 022-4886 7000 or send a request to Ms. Prajakta Pawle, Executive, NSDL at evoting@nsdl.com

Any vote received from a member beyond 5.00 P.M. IST on 27<sup>th</sup> August, 2025 will not be valid and remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 P.M. IST on 27<sup>th</sup> August, 2025.

Members who have cast their vote(s) by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM, however those members shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM.

The Board of Directors at their meeting held on 18<sup>th</sup> July, 2025 has appointed Mr. Ramanathan Nachiappan, Designated Partner of S Dhanapal & Associates LLP, Practising Company Secretaries, Chennai, as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

Ms. Prajakta Pawle, Executive, National Securities Depository Limited, Trade World, "A" Wing, 4<sup>th</sup> Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013 will be the person responsible to address the grievances connected with the voting by electronic means. Her contact details are as follows:

**Phone number:** 022-48867000 | **Email:** evoting@nsdl.com

Members may kindly note that the Chairman or in his absence the Vice Chairman or the person authorized in this regard will announce the results on or before Saturday, the 30<sup>th</sup> August, 2025 at the Registered Office of the Company.

The results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website www.hap.in and on the website of NSDL, www.evoting.nsdl.com for information to the members, besides being communicated to the Stock Exchanges.

**SPECIAL WINDOW FOR RE-LOGGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES**  
Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MRSD-PoD/PIR/2025/97 dated July 02, 2025, the Company is pleased to offer a one-time special window only for re-logging of transfer deeds lodged prior to 1 April 2019 and rejected / returned / not attended due to deficiency in the documents / process / or otherwise. The facility for the re-logging is available from 7<sup>th</sup> July 2025 to 6<sup>th</sup> January 2026. The shareholders are requested to re-logout such cases with the Company within the aforesaid timeline. The shareholders are requested to re-logout such cases with the Registrar and Share Transfer Agent M/s. Integrated Registry Management Services Pvt. Ltd. (Integrated Enterprises (India) Ltd., 30, Ramana Residency, 4<sup>th</sup> Cross, Sampige Road, Malleshwaram, Bengaluru, Karnataka 560003, Ph: 080 - 23460815 E-mail: irg@integratedindia.in within the aforesaid timeline.

**INDIVIDUAL COMMUNICATION TO MEMBERS WHO HAVE NOT REGISTERED THEIR E-MAIL ID**  
As per Regulation 36(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, the letter mentioning the web link including the exact path, where complete details of Annual Report are available is being sent to those members who have not registered their e-mail address either with the Company or either with any Depository or Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Company.

By Order of the Board of Directors  
For Hatsun Agro Product Limited  
Sd/-  
C Subramaniam  
Company Secretary  
FCS 6971

Place : Chennai  
Date : 01.08.2025



